



अपने मतदान विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें



LAVOTE.GOV पर 7 जून को होने वाले प्राथमिक चुनाव के संबंध में आपके लिए आवश्यक सबकुछ है। LA County Registrar-Recorder/County Clerk सटीक और निष्पक्ष चुनाव जानकारी और मतदान संसाधनों के लिए आधिकारिक स्रोत है। मतदान कभी इससे अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित नहीं रहा। पढ़ें कि आप चुनाव के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं!

मैं मतदान के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता हूँ? पंजीकरण की अंतिम तिथि कब है?

अगर आप कहीं अन्यत्र से आए हैं, LA County में नए हैं या पहली बार मतदान करने जा रहे हैं तो आपको डाक मतपत्र के जरिए मत प्राप्त करने के लिए 23 मई 2022 तक पंजीकरण करना आवश्यक है।

मतदान हेतु पंजीकरण के लिए सबसे आसान रास्ता LAVOTE.GOV पर जाना है।

अगर आपको इंटरनेट, पत्र मतदाता पंजीकरण कार्ड सर्वाधिक सरकारी भवनों – जैसे लाइब्रेरी या डीएमवी कार्यालयों पर उपलब्ध हैं।

क्या मैं डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र द्वारा अपने मतदान को ट्रैक कर सकता हूँ?

हाँ! आप मेरा मतपत्र कहाँ है?

(california.ballottrax.net) को सब्सक्राइब करके पथ के प्रत्येक चरण पर अपने मतपत्र को निःशुल्क ट्रैक कर सकते हैं।

आपको पाठ्य संदेश, ईमेल या वॉइसमेल द्वारा आपके डाक मतपत्र की स्थिति संबंधी अधिसूचनाएँ प्राप्त होंगी।

आपके द्वारा मतपत्र वापस करने के बाद आपको इस बात की अधिसूचना प्राप्त होगी कि यह रजिस्ट्रार के कार्यालय कब पहुँची और इसके बाद इसकी गिनती होगी।

मेरे मतदान विकल्प क्या हैं?

- डाक द्वारा मतदान।** ला काउंटी में प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जून के प्राथमिक चुनाव के लिए डाक से बैलेट भेजा जाएगा। बैलेट भेजने की शुरुआत 5 मई से हो जाएगी। आपको केवल इसे भरना, वापसी वाले लिफाफे पर हस्ताक्षर करना और फिर इसे वापस भेज देना होगा। प्रतीक्षा मत करें। जल्दी मतदान करें!
- मतपत्र पेटी में मत गिराना।** आप जल्दी मतदान करके और अपने मतपत्र को 400 स्थानों के आधिकारिक मतपेटी में से किसी में गिराकर मतदानकेंद्र में लाइन में खड़े रहने से बच सकते हैं। आपके आसपास के सुविधाजनक स्थानों की एक सूची डाक से आने वाले पैकेट के मतपत्र में शामिल होती है।
- 28 मई से किसी मतदानकेंद्र पर जाएँ।** अगर आप स्वयं जाकर मतदान करते हैं तो मोबाइल पोल पास के द्वारा समय की बचत करें! यह मतदान केंद्र पर लगने वाले समय की बचत का एक सुविधाजनक तरीका है, जिसमें आपको घर छोड़ने के पहले अपना चयन करना होता है।

मतपेटी और मतदान केंद्र के स्थानों की पूरी सूची LAVOTE.GOV पर उपलब्ध होगी।

ला काउंटी में मतदान इससे अधिक आसान कभी नहीं रहा

अधिक जानकारी के लिए **LAVOTE.GOV** पर जाएँ

